



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2012/माघ 13, 1933

No. 188]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012/MAGHA 13, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

का.आ. 213(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित परियोजनाओं को लोक प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

क्र. सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	रायगंज-इटाहार (नई लाइन)
2.	रायगंज-दालकोला (नई लाइन)
3.	चालसा-नक्सल (नई लाइन)
4.	अंबारी फालाकाटा-न्यू मयनागुड़ी (दोहरीकरण)
5.	न्यू कूचबिहार-सामुक्तला (दोहरीकरण)

[फा. सं. 2011/डब्ल्यू 1/एनएफ/विशेष रेल परियोजना/पार्ट-1]

विनय सिंह, कार्यपालक निदेशक (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2012

S.O. 213(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects, mentioned in column (2) of the Table below, as the Special Railway Project in the State of West Bengal for providing infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Name of the Project
(1)	(2)
1.	Raiganj-Itahar (New Line)
2.	Raiganj-Dalkhola (New Line)
3.	Chalsa-Naxal (New Line)
4.	Ambari Falakata-New Maynaguri (Doubling)
5.	New Coochbehar-Samukhtala (Doubling)

[F. No. 2011/WI/NF/Spl. Rly. Project/Pt. I]

VINAY SINGH, Executive Director (Works)